

# नकली प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश

Author: Jagran Publish Date: Tue, 29 Mar 2022 11:16 PM (IST) Updated Date: Tue, 29 Mar 2022 11:16 PM (IST)



संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : थाना कुलगढ़ी पुलिस ने फिरोजपुर कैंट के निकट गज्जन कालोनी में चल रही नकली प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकली प्रोटीन बनाने का सामान बरामद कर फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका पार्टनर मौके से फरार है।

फिरोजपुर देहात के डीएसपी यादविंदर सिंह बाजवा ने बताया कि थाना कुलगढ़ी की सब इंस्पेक्टर परमजीत कौर मंगलवार को पुलिस पार्टी के साथ गश्त पर निकली थी तो उन्हें मुखिबर खास ने सूचना दी कि कैंट की घुमारमंडी में सोनू शर्मा और अजय मित्तल निवासी गली नंबर दो मकान नंबर 20 ने गज्जन सिंह कालोनी में स्थित एक मकान में ताकतवार बनाने के लिए खाए जाने वाले भारतीय और इंटरनेशनल कंपनियों के नकली मिलावटी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है। आरोपित नामी कंपनियों के न स्टिकर छपवाकर नकली माल के डिब्बो पर लगाकर बेचते हैं।

डीएसपी ने बताया कि मुखिबर का यह भी कहना था कि आरोपित सोनू शर्मा मकान के एक हिस्से में जुए का अड्डा भी चला रखा है। सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर ने रेड की तो अजय मित्तल को मौके पर काबू कर लिया गया, जबकि सोनू शर्मा मौके से फरार हो गया।

डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने फैक्ट्री से 350 किलो पाउडर, पांच लीटर वाले प्लास्टिक वाले 141 खाली डिब्बे, प्लास्टिक के 21 डिब्बे (वनीला फ्लेवर सील बंद पांच लीटर वाले), एक पैकिंग वाली मशीन, बिल बुक, पांच पैकेट चाकलेट पाउडर व एक कंप्यूटर कंडा बरामद किया है। फूड सप्लाय विभाग करेगा सैंपल लेकर जांच

डीएसपी ने बताया कि आरोपित सोनू की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जबकि अजय से पूछताछ जारी है। बरामद हुए सामान संबंधी महकमा फूड सेफ्टी सप्लाय के कर्मचारियों की तरफ से सैंपल लेकर जांच की जा रही है। अजय मित्तल तो अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा।

Source: <https://www.jagran.com/punjab/firozpur-fake-protein-manufacturing-factory-caught-22582599.html>